

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 469]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 सितम्बर 2010—आश्विन 5, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2010

क्र. 14-एफ-1-25-2010-अट्टारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पंचायत मझौली, जिला सीधी के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षित किया गया	आरक्षित कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक एवं नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 10, राजीव गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 5, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 01, महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र. 11, अब्दुल कलाम वार्ड (3) वार्ड क्र. 12, इन्दिरा गांधी वार्ड (4) वार्ड क्र. 15, लोकमान्य तिलक वार्ड
4	अनारक्षित वार्ड	09	(1) वार्ड क्र. 02, पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड (2) वार्ड क्र. 03, विवेकानन्द वार्ड (3) वार्ड क्र. 04, लालबहादुर शास्त्री वार्ड (4) वार्ड क्र. 06, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड (5) वार्ड क्र. 07, पं. दीनदयाल वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
			(6) वार्ड क्र. 08, डॉ. अम्बेडकर वार्ड (7) वार्ड क्र. 09, सुभाषचन्द्र बोस वार्ड (8) वार्ड क्र. 13, सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड (9) वार्ड क्र. 14, डॉ. हेडगेवार वार्ड
5	अनु. जा. के आरक्षित वार्डों में से अ.जा. (महिला) के लिये आरक्षित वार्ड.	0	-
6	अनु.ज.जा. के आरक्षित वार्डों में से अ.ज.जा. (महिला) के लिये आरक्षित वार्ड.	0	-
7	अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के लिये आरक्षित वार्ड.	02	(1) वार्ड क्र. 01, महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र. 12, इन्दिरा गांधी वार्ड
8	अनारक्षित वार्डों में से (महिला) के लिए आरक्षित वार्ड	05	(1) वार्ड क्र. 03, विवेकानन्द वार्ड (2) वार्ड क्र. 06, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड (3) वार्ड क्र. 08, डॉ. अम्बेडकर वार्ड (4) वार्ड क्र. 09, सुभाषचन्द्र बोस वार्ड (5) वार्ड क्र. 13, सरदार बल्लभभाई पटेल वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. मिश्रा, सचिव.